

॥ श्रीरुद्रप्रश्नः ॥

śrīrudrapraśnaḥ

Anuvakam 10

	Learning ¹	Continuous chanting ²
1	द्रापे अन्धसस्यते drāpe andhasaspate दरिद्रन्नीललोहित daridrannīlalohita	द्रापे अन्धसस्यते दरिद्रन्नीललोहित। drāpe andhasaspate daridrannīlalohita
2	एषां पुरुषाणामेषां पशूनां eṣāṃ puruṣāṇāmeṣāṃ paśūnāṃ मा भेरमाऽरो मो एषां mā bhermā'ro mo eṣāṃ किञ्चनाममत् kiñcanāmamat	एषां पुरुषाणामेषां पशूनां मा भेरमाऽरो मो एषां किञ्चनाममत्। eṣāṃ puruṣāṇāmeṣāṃ paśūnāṃ mā bhermā'ro mo eṣāṃ kiñcanāmamat
3	या ते रुद्र शिवा तनूः yā te rudra śivā tanūḥ शिवा विश्वाहभेषजी śivā viśvāhabheṣajī	या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहभेषजी। yā te rudra śivā tanūḥ śivā viśvāhabheṣajī

¹ To follow the learning column, where each śloka is divided into many parts and each part is chanted twice, please refer to Sri-Rudram-Learning-Method-1-Anuvakam-10.mp3 or Sri-Rudram-Learning-Method-2-Anuvakam-10.mp3 where each part is chanted only once.

² To follow continuous chanting column, where the śloka is chanted without interruption and without repetition please refer to Sri-Rudram-Learning-Method-3-Anuvakam-10.mp3.

	Learning ¹	Continous chanting ²
4	<p>शि॒वा रु॒द्रस्य॑ भेष॒जी śivā rudrasya bheṣajī</p> <p>तया॑ नो मृ॒ड जी॒वसे॑ tayā no mṛḍa jīvase</p>	<p>शि॒वा रु॒द्रस्य॑ भेष॒जी तया॑ नो मृ॒ड जी॒वसे॑। śivā rudrasya bheṣajī tayā no mṛḍa jīvase</p>
5	<p>इ॒मागं॑ रु॒द्राय॑ imāgm̐ rudrāya</p> <p>तवसे॑ क॒पर्दि॑ने tavase kapardine</p> <p>क्षय॑द्वी॒राय॑ प्र॒भराम॑हे म॒तिम् kṣayadvīrāya prabharāmahe matim</p>	<p>इ॒मागं॑ रु॒द्राय॑ तवसे॑ क॒पर्दि॑ने॒ क्षय॑द्वी॒राय॑ प्र॒भराम॑हे म॒तिम्। imāgm̐ rudrāya tavase kapardine kṣayadvīrāya prabharāmahe matim</p>
6	<p>यथा॑ नः॒ शम॑सत् yathā naḥ śamasat</p> <p>द्वि॒पदे॑ चतु॒ष्पदे॑ dvipade catuṣpade</p> <p>विश्वं॑ पु॒ष्टं viśvaṁ puṣṭam</p> <p>ग्रामे॑ अ॒स्मिन्नना॑तुरम् grāme asminnanāturam</p>	<p>यथा॑ नः॒ शम॑सद्वि॒पदे॑ चतु॒ष्पदे॑ विश्वं॑ पु॒ष्टं ग्रामे॑ अ॒स्मिन्नना॑तुरम्। yathā naḥ śamasaddvipade catuṣpade viśvaṁ puṣṭam grāme asminnanāturam</p>
7	<p>मृ॒डा नो॑ रु॒द्रो mṛḍā no rudro</p> <p>त नो॑ मय॑स्कृ॒धि ta no mayaskṛdhi</p> <p>क्षय॑द्वी॒राय॑ नम॑सा वि॒धेम॑ ते kṣayadvīrāya namasā vidhema te</p>	<p>मृ॒डा नो॑ रु॒द्रो॒त नो॑ मय॑स्कृ॒धि क्षय॑द्वी॒राय॑ नम॑सा वि॒धेम॑ ते। mṛḍā no rudrota no mayaskṛdhi kṣayadvīrāya namasā vidhema te</p>

	Learning ¹	Continous chanting ²
8	<p>यच्छं च योश्च yacchaṁ ca yośca</p> <p>मनुरायजे पिता manurāyaje pitā</p> <p>तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ tadaśyāma tava rudra praṇītau</p>	<p>यच्छं च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ। yacchaṁ ca yośca manurāyaje pitā tadaśyāma tava rudra praṇītau</p>
9	<p>मा नो महान्तम् mā no mahāntam</p> <p>उत मा नो अर्भकं uta mā no arbhakaṁ</p> <p>मा न उक्षन्तम् mā na ukṣāntam</p> <p>उत मा न उक्षितम् uta mā na ukṣitam</p>	<p>मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्। mā no mahāntamuta mā no arbhakaṁ mā na ukṣāntamuta mā na ukṣitam</p>
10	<p>मा नोऽवधीः mā no'vadhīḥ</p> <p>पितरं मोत मातरं pitarāṁ mota mātaraṁ</p> <p>प्रिया मा नः priyā mā naḥ</p> <p>तनुवो रुद्र रीरिषः tanuvō rudra rīriṣaḥ</p>	<p>मा नोऽवधीः पितरं मोत मातरं प्रिया मा नस्तनुवो रुद्र रीरिषः। mā no'vadhīḥ pitarāṁ mota mātaraṁ priyā mā nastanuvō³ rudra rīriṣaḥ</p>

³ Sandhi rule: ḥ changes to ś before c/ch, to ṣ before ṭ ṭh, to s before t/th (naḥ tanuvo > नस्तनुवो nastanuvo; namaḥ te > नमस्ते namaste).

	Learning ¹	Continous chanting ²
11	<p>मा न॑स्तोके mā nastoke</p> <p>तन॑ये मा न॒ आयु॑षि tanāye mā na āyūṣi</p> <p>मा नो॑ गोषु मा नो mā no goṣu mā no</p> <p>अश्वे॑षु रीरिषः aśveṣu rīriṣaḥ</p>	<p>मा न॑स्तोके तन॑ये मा न॒ आयु॑षि मा नो॑ गोषु मा नो॑ अश्वे॑षु रीरिषः।</p> <p>mā nastoke tanāye mā na āyūṣi mā no goṣu mā no aśveṣu rīriṣaḥ</p>
12	<p>वी॒रान्मा नो॑ vīrānmā no</p> <p>रुद्र॑ भामि॒तोऽव॑धीः rudra bhāmito'vadhīḥ</p> <p>ह॒विष्म॑न्तो haviṣmānto</p> <p>नम॑सा विधेम ते namasā vidhema te</p>	<p>वी॒रान्मा नो॑ रुद्र॑ भामि॒तोऽव॑धीर्ह॒विष्म॑न्तो नम॑सा विधेम ते। vīrānmā no rudra bhāmito'vadhīrhaṣmānto⁴ namasā vidhema te</p>
13	<p>आ॒रात्ते॑ गोघ्न ārātte goghna</p> <p>उ॒त पू॑रुष॒घ्ने uta pūruṣaghne</p> <p>क्ष॒यद्वी॑राय kṣayadvīrāya</p> <p>सु॒म॒न॒म॒स्मे ते॑ अस्तु sumnamasme te astu</p>	<p>आ॒रात्ते॑ गोघ्न॒ उ॒त पू॑रुष॒घ्ने क्ष॒यद्वी॑राय सु॒म॒न॒म॒स्मे ते॑ अस्तु। ārātte goghna uta pūruṣaghne kṣayadvīrāya sumnamasme te astu</p>

⁴ Sandhi rule: ḥ which is not preceded by a-dvaya (a or ā) changes to r before soft consonants and vowels (bhāmito'vadhīḥ haviṣmānto > भामितोऽवधीर्हविष्मन्तो bhāmito'vadhīrhaṣmānto; hareḥ nāma > हरेर्नाम harernāma).

	Learning ¹	Continous chanting ²
14	<p>रक्षा च नो rakṣā ca no</p> <p>अधि च देव ब्रूहि adhi ca deva brūhi</p> <p>अधा च नः adhā ca naḥ</p> <p>शर्म यच्छ śarma yaccha</p> <p>द्विवर्हाः dvibarhāḥ</p>	<p>रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च नः शर्म यच्छ द्विवर्हाः । rakṣā ca no adhi ca deva brūhyadhā⁵ ca naḥ śarma yaccha dvibarhāḥ</p>
15	<p>स्तुहि श्रुतं गर्तं stuhi śrutam garta</p> <p>सदं युवानं sadam yuvanam</p> <p>मृगन्न भीमम् mṛganna bhīmam</p> <p>उपहत्तुमुग्रम् upahatnumugram</p>	<p>स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्तुमुग्रम् । stuhi śrutam gartasadam yuvanam mṛganna bhīmamupahatnumugram</p>
16	<p>मृडा जरित्रे mṛḍā jaritre</p> <p>रुद्र स्तवानो rudra stavāno</p> <p>अन्यन्ते अस्मन् anyante asman</p> <p>निवपन्तु सेनाः nivapantu senāḥ</p>	<p>मृडा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः । mṛḍā jaritre rudra stavāno anyante asmannivapantu senāḥ</p>

⁵ Sandhi rule: i-doaya (i or ī) becomes y before any other vowel (brūhi adhā > ब्रूह्यधा brūhyadhā; yadi api > यद्यपि yadyapi).

	Learning ¹	Continous chanting ²
17	<p>परि॑णो रु॒द्रस्य॑ pari॑ṇo ru॒drasya॑</p> <p>हे॒तिर्वृ॑णक्तु he॒tirvṛ॑ṇaktu</p> <p>परि॑ त्वे॒षस्य॑ pari॑ tve॒ṣasya॑</p> <p>दु॒र्मति॑ रंघा॒योः durma॑ti raḅhāyoḥ</p>	<p>परि॑णो रु॒द्रस्य॑ हे॒तिर्वृ॑णक्तु परि॑ त्वे॒षस्य॑ दु॒र्मति॑ रंघा॒योः । pari॑ṇo ru॒drasya॑ he॒tirvṛ॑ṇaktu pari॑ tve॒ṣasya॑ durma॑ti raḅhāyoḥ</p>
18	<p>अव॑ स्थि॒रा ava॑ sthi॒rā</p> <p>म॒घव॑च्चः maḅhava॑dbhyaḥ</p> <p>तनु॑ष्व tanu॑ṣva</p> <p>(म॒घव॑च्चस्तनु॑ष्व) (maḅhava॑dbhyaṣtanu॑ṣva⁶)</p> <p>मी॒ध्वस्तो॑काय॒ mīḅdhva॑stokaḅya</p> <p>तन॑याय मृ॒डय॑ tanā॑yāya mṛḅḁaya</p>	<p>अव॑ स्थि॒रा म॒घव॑च्चस्तनु॑ष्व मी॒ध्वस्तो॑काय॒ तन॑याय मृ॒डय॑ । ava॑ sthi॒rā maḅhava॑dbhyaṣtanu॑ṣva mīḅdhva॑stokaḅya tanā॑yāya mṛḅḁaya</p>
19	<p>मी॒ढुष्ट॑म शि॒वत॑म mīḅḁhuṣṭa॑ma śiva॑tama</p> <p>शि॒वो नः॑ सु॒मना॑ भव śiva॑o naḅ su॒manā॑ bhava</p>	<p>मी॒ढुष्ट॑म शि॒वत॑म शि॒वो नः॑ सु॒मना॑ भव । mīḅḁhuṣṭa॑ma śiva॑tama śiva॑o naḅ su॒manā॑ bhava</p>

⁶ Sandhi rule: ḥ changes to ś before c/ch, to ṣ before ṭ/ṭh, to s before t/th (maḅhavadbhyaḅ tanuṣva > म॒घव॑च्चस्तनु॑ष्व maḅhavadbhyaṣtanuṣva; namaḅ te > नमस्ते namaste).

	Learning ¹	Continous chanting ²
20	<p>पर॒मे वृ॒क्ष आ॒यु॒धन्नि॒धाय॒ parame vṛkṣa āyudhannidhāya</p> <p>कृ॒त्तिं व॒सान॒ kṛttiṁ vasāna</p> <p>आ॒च॒र॒ पि॒ना॒कं ācāra pinākam</p> <p>बि॒भ्र॒दा॒ग॒हि bibhradāgahi</p>	<p>पर॒मे वृ॒क्ष आ॒यु॒धन्नि॒धाय॒ कृ॒त्तिं व॒सान॒ आ॒च॒र॒ पि॒ना॒कं वि॒भ्र॒दा॒ग॒हि॒। parame vṛkṣa āyudhannidhāya kṛttiṁ vasāna ācāra pinākam bibhradāgahi</p>
21	<p>वि॒कि॒रि॒द् विलो॑हित॒ vikirida vilohita</p> <p>नम॑स्ते अस्तु भगवः namaste astu bhagavaḥ</p>	<p>वि॒कि॒रि॒द् विलो॑हित॒ नम॑स्ते अस्तु भगवः॒। vikirida vilohita namaste astu bhagavaḥ</p>
22	<p>या॒स्ते॑ स॒हस्र॑गं yāste sahasragṁ</p> <p>हे॒तयो॑न्यम॒स्मन् hetayonyamaśman</p> <p>नि॒व॑पन्तु॒ ताः nivāpantu tāḥ</p>	<p>या॒स्ते॑ स॒हस्र॑गं हे॒तयो॑न्यम॒स्मन्नि॒व॑पन्तु॒ ताः॒। yāste sahasragṁ hetayonyamaśmannivāpantu tāḥ</p>
23	<p>स॒हस्रा॑णि स॒हस्र॑धा sahasraṇi sahasradhā</p> <p>बा॒हु॒वोस्त॑व हे॒तयः॑ bāhuvostava hetayaḥ</p>	<p>स॒हस्रा॑णि स॒हस्र॑धा बा॒हु॒वोस्त॑व हे॒तयः॑। sahasraṇi sahasradhā bāhuvostava hetayaḥ</p>

	Learning ¹	Continous chanting ²
24	<p>तासा॒मीशा॑नो tāsāmīśāno</p> <p>भगवः॑ परा॒चीना॒ bhagavaḥ parācīnā</p> <p>मुखा॑ कृधि mukhā kṛdhi</p>	<p>तासा॒मीशा॑नो भगवः॑ परा॒चीना॒ मुखा॑ कृधि ॥ tāsāmīśāno bhagavaḥ parācīnā mukhā kṛdhi</p>